






फर्द अहकाम

माल्य..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम..... गोविन्दगढ़ (अलवर).....
 पिकी..... बनाम..... संतलाल वगैरा.....
 प्रकरण सं..... 1/202/23..... ता. रजू..... 18.12.23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
18.12.2023	वकील वादी उपस्थित। यह दावा वादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलाद चौधरी ने पेश किया। दावा दर्ज रजि0 हो। प्रतिवादीगण को जर्जे रजि0 डाक नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 15.01.2024 को पेश हो। <div style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) </div>	
15.01.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब..... को अदालत से जवाब पेश किया गया। पत्रावली दिनांक 24.1.24 को पेश हो। <div style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) </div>	
24.1.24	पत्रावली हस्तुत हुई। वकूलाय पत्रावाप उपस्थित। वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से फार्म न03 के साथ प्रतिपक्ष हस्तुत क्रिम जो शामिल फावली है। पत्रावली वाले इनकार शामिल रिपोर्ट दिनांक 31.1.24 को पेश है। <div style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) </div>	
31.1.24 साबिक आदेश दिनांक..... की पालना में पत्रावली वास्ते..... दिनांक 05/2/24 को पेश हो। <div style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) </div>	
05.2.24	पत्रावली हस्तुत हुई। वकूलाय पत्रावाप उपस्थित। जर्जे सं. 14, 15 उपस्थित। जो जवाब पेश नहीं करना चाले है। अधिवक्ता सं. 4 की ओर से अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा ने वकालतमात्रा पेश किया है। पत्रावली वाले जवाब प शेष की तलबी देह, पुन तलबाना पेश हो। पत्रावली भांगडा दिनांक 29.2.24 को पेश है। <div style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) </div>	

रजि०

